



12  
24 3 83

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54]  
No. 54]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 17, 1983/माघ 28, 1904  
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 17, 1983/MAGHA 28, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

ऊर्जा मंत्रालय  
(पेट्रोलियम विभाग)  
आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1983

सं० का० मि० 88(घ) ---आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955(1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) आदेश, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् ---

1. (i) इस आदेश की मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) संशोधित आदेश, 1983 कहा जायेगा।

(ii) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2 मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्य निर्धारण) आदेश, 1970 (जिसे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा जायेगा) में धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् ---

"3क मिट्टी के तेल के रिआयती तथा गैर-रिआयती मूल्यों के निर्धारण के लिए विशेष प्रावधान :-

जब तक कि मिट्टी के तेल की बिक्री तथा वितरण के लिए किसी राज्य सरकार द्वारा कोई संशोधित योजना नहीं बनई जाती तथा

केन्द्रीय सरकार द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया जाता, मिट्टी के तेल की बिक्री तथा वितरण निम्नलिखित योजना के अनुसर किया जायेगा अर्थात् ---

कोई भी डीलर जिसके पास मिट्टी के तेल का भंडार है ऐसे मिट्टी के तेल को नहीं बेचेगा :

(क) एक थोक उपभोक्ता को गैर-रिआयती मूल्य के अलावा किसी अन्य मूल्य पर;

(ख) किसी अन्य उपभोक्ता को जिसकी घरेलू उपयोग के लिये मिट्टी के तेल को खरीदने को हुकदारी किसी ऐसे दस्तावेज पर आधारित है जिसमें धारक को उसकी सामान्य वैयक्तिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की सच्चाई के लिए प्राधिकृत किया गया हो और जिसे किसी राज्य सरकार द्वारा अपनी आवश्यक वस्तुओं के वितरण की योजना के अन्तर्गत जारी किया गया हो, चाहे इसे रशन कार्ड कहा जाए या किसी और नाम से पुकारा जाये,

(i) ऐसी हुकदारी का मूल्य प्रतिशत रिआयती मूल्य से अधिक मूल्य पर, और

(ii) ऐसी हुकदारी की शेष मात्रा, गैर-रिआयती मूल्य के अधिक मूल्य पर :

वर्षों कि जहाँ ऐसे राशन कार्ड में या अन्य वस्तावेज में मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में कोई हकदारी निर्दिष्ट नहीं की गई हो, मिट्टी के तेल की हकदारी राशन कार्ड में या अन्य वस्तावेज में धनाज अथवा चीनी के लिए निर्दिष्ट यूनियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा दिये गये ऐसे आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

अध्यायः—इस धारा में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अशेषित न हो :—

- (i) "मिट्टी के तेल" में विमानन टर्बाईन ईंधन शामिल नहीं है
- (ii) "थोक उपभोक्ता" का अर्थ वह उपभोक्ता है जो मिट्टी के तेल की खरीद किसी परमिट, लइसेंस या अन्य वस्तावेज के आधार पर करता है, जो कि राशन कार्ड अथवा अन्य वस्तावेज न हो जिसका उपधारा (ख) में उल्लेख किया गया है, जो किसी राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण की अथवा योजना के अनुसरण में जारी किया गया हो और जिनमें उसको ऐसी खरीद के लिए प्राधिकृत किया गया हो
- (iii) "घरेलू उपयोग" का अर्थ है खाना पकाने अथवा रोगनी के प्रयोजनों के लिये उपयोग, परन्तु इसमें ऐसे प्रयोजनों के लिए किसी होटल, कैटिन जलपान गृह और इसी प्रकार के अर्थों द्वारा उपयोग सम्मिलित नहीं है,
- (iv) "रिआयती मूल्य" किसी मुख्य बन्दरगाह अथवा शोधनशाला के संबंध में अर्थ है वह मूल्य जो कि धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार निकाले गये हैं और घोषित किये गये हैं, जो इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 में दर्शाये गए मूल्य के आधार पर हैं
- (v) "रिआयती मूल्य" का किसी मुख्य बन्दरगाह अथवा शोधनशाला के संबंध में अर्थ है वह मूल्य जो कि धारा 3 के प्रावधानों अनुसार निकाले गए हैं और घोषित किये गये हैं, जो इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 3 में दर्शाये गए मूल्य के आधार पर हैं

अध्याय II—यदि, किसी राज्य में, राशन कार्ड या किसी अन्य वस्तावेज जिसका उपधारा (ख) में उल्लेख किया गया है के आधार पर आवश्यक वस्तुओं के वितरण की कोई योजना नहीं है, घरेलू उपयोग के लिए मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में उपभोक्ता की हकदारी का निर्धारण जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अन्य योजना तैयार नहीं की जाती, उस राज्य में आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए लागू योजना के अनुसरण किया जायेगा।

3. उपरोक्त आदेश में धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"4क रिआयती तथा गैर-रिआयती मूल्यों पर बेचे जाने वाले मिट्टी के तेल का भंडार से प्रदर्शित करना :—धारा 3 के प्रभावी अवधि के दौरान प्रत्येक बंडल अपने विक्रय के स्थान पर या प्रवेशद्वार के निकट इस प्रयोजन के लिए रखे गये विशेष बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा :—

- (क) रिआयती अथवा गैर-रिआयती मूल्य पर बिक्री के लिए समय समय पर उसके द्वारा रखा गया भंडार;
- (ख) ऐसे मिट्टी के तेल के घोषित मूल्य; तथा
- (ग) ऐसे मूल्य जिन पर वह ऐसे मिट्टी के तेल को बेचना चाहता है।"

4. उक्त आदेश में, संलग्न अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

### अनुसूची

[धारा 2 (घ) तथा 3 देखें]

1. मुख्य बन्दरगाह/शोधनशाला पर प्रचुर मात्रा में मिट्टी के तेल के लिए लिटर मूल्य अधिकतम बिक्री मूल्य

क्रम सं०	मुख्य बन्दरगाह/शोधनशाला	मिट्टी का तेल		विमानन टर्बाईन ईंधन
		रिआयती मूल्य	गैर-रिआयती मूल्य	
		रु०	रु०	रु०
1.	बम्बई/कोयली/मथुरा	1544.93	2844.93	4121.85
2.	कोचीन	1547.45	2847.45	—
3.	मद्रास	1555.35	2855.35	4.41.21
4.	विशाखपत्तनम	1552.73	2852.73	4134.64
5.	हल्दिवा/दिम्बोई/गोहाटी/बरोनी/बोंगाईगांव	1559.51	2859.51	4140.04
6.	कलकत्ता	1580.32	2880.32	4140.04
7.	काण्डला	1579.31	2879.31	4119.45
8.	ओखा	1591.73	2891.73	4124.48
9.	गोवा	1575.49	2875.49	4121.71
2.	समान दर परिवहन भाड़ा	रु० 50/- प्रति लिटर		प्रति लिटर
	उत्तम कोटि का मिट्टी का तेल			
3.	18.5 लिटर टिन का मूल्य	रु० 4.75 प्रति टिन		

[का० सं० पी०-20014/2/33-पी० पी०]  
प्रार० वासुदेवन, संयुक्त सचिव

### MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

### ORDER

New Delhi, the 17th February, 1983

G.S.R. 88(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970, namely :—

1. (1) This order may be called the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Amendment Order, 1983.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970 (herein after referred to as the said Order), after clause 3, the following clause shall be inserted, namely :—

"3A. Special provisions for the fixation of subsidised and non-subsidised prices of kerosene—Until a revised scheme for the sale and distribution of kerosene is made by a State Government and approved by the Central Government, sale and distribution of kerosene shall be made in accordance with the following scheme, namely :—

No dealer having stock of kerosene shall sell such kerosene—

- (a) to a bulk consumer, at a price other than the non-subsidised price;
- (b) any other consumer whose entitlement to purchase kerosene for domestic use is based on any document authorising the supply of essential commodities for meeting the ordinary daily requirements of the holder thereof issued by a State Government in pursuance of its scheme of distribution of essential commodities, whether called as ration card or by any other name,—
  - (i) seventy per cent of such entitlement, at a price higher than the subsidised price; and
  - (ii) the balance of such entitlement, at a price higher than the non-subsidised price :

Provided that where such ration card or other document does not specify any entitlement with regard to kerosene, the entitlement for kerosene shall be determined on the basis of units specified in the ration card or other document for cereals or sugar, as the case may be, in accordance with such orders as the State Government may, by notification in the Official Gazette, make in this behalf.

**Explanation I.**—In this clause, unless the context otherwise requires,—

- (i) "kerosene" does not include aviation turbine fuel;
- (ii) "bulk consumer" means a consumer who makes purchase of kerosene on the strength of any permit, licence or other document, not being a ration card or other document referred to in sub-clause (b), issued by a State Government in pursuance of its scheme of distribution of essential commodities, authorising such purchase by him;
- (iii) "domestic use" means use for the purposes of cooking or illumination, but does not include any use for such purposes by a hotel, canteen, restaurant and the like;
- (iv) "non-subsidised price", in relation to a main port or refinery, means the price derived and declared in accordance with the provisions of clause 3, on the basis of the price indicated against it in column 4 of the Schedule appended to this Order;
- (v) "subsidised price", in relation to a main port or refinery, means the price derived and declared in accordance with the provisions of clause 3, on the basis of the price indicated against it in column 3 of the Schedule appended to this Order

**Explanation II.**—If, in a State, there is no scheme for the distribution of essential commodities on the basis of ration card or other document referred to in sub-clause (b), the entitlement of the consumer with regard to kerosene for domestic use shall be determined until any other scheme is made in this behalf by the State Government, in accordance with such scheme of distribution of essential commodities as is in force in that State."

3. In the said Order, after clause 4, the following clause shall be inserted, namely :—

"4A. Stock of kerosene to be sold at subsidised and non-subsidised prices to be displayed.—During the period of operation of clause 3A, every dealer shall cause to be separately and prominently displayed on a special board to be maintained for this purpose at or near the entrance of the place of sale,—

- (a) the stock of kerosene held by him from time to time for delivery at the subsidised and non-subsidised prices;
- (b) the declared prices of such kerosene; and
- (c) the prices at which he proposes to sell such kerosene."

4. In the said Order, for the Schedule appended thereto, the following Schedule shall be substituted, namely :—

#### "THE SCHEDULE

[See clauses 2(d) and 3]

I. Basic ceiling selling prices of kerosene in bulk per kilolitre ex-Main Port/Refinery.

Sl. No.	Main/Port Refinery	Kerosene		Aviation Turbine Fuel
		Subsidised price Rs.	Subsidised Non-price Rs.	
(1)	Bombay/Koyali/Mathura	1544.93	2844.93	4121.85
(2)	Cochin	1547.45	2847.45	—
(3)	Madras	1555.35	2855.35	4141.21
(4)	Visakhapatnam	1552.73	2852.73	4134.64
(5)	Haldia/Digboi/Gauhati/Barauni/Bongaigaon.	1559.51	2859.51	4140.04
(6)	Calcutta	1580.32	2880.32	4140.04
(7)	Kandla	1579.31	2879.31	4119.45
(8)	Okha	1591.73	2891.73	4124.48
(9)	Goa	1575.49	2875.49	4121.71

II. Flat transportation charges Rs. 50 per kilolitre Kerosene superior.

III. Price of 18.5 litre tin Rs. 4.75 per tin".

[File No. P-20014/2/83-PP  
R, VASUDEVAN, Jr. Secy

